

## केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर के छात्र राष्ट्र स्तरीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी सह राष्ट्रिय एकीकरण शिविर हेतु चयनित

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर दोनों पालियों के 48-48 छात्रों ने 21 एवं 22 अक्टूबर 2016 को केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज में आयोजित संकुल सतरीय सामाजिक विज्ञान शिविर में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के छात्रों ने सीतापुर का नाम रोशन किया। समूह नृत्य, एकांकी, हिंदी वाद-विवाद

(विपक्ष), त्वरित चित्रकला कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग, अंग्रेजी भावपूर्ण भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त कर संभाग स्तरीय प्रदर्शनी जिसका आयोजन के० वि० आई० आई० एम लखनऊ में 25 एवं 26 अक्टूबर को हुआ उसमें प्रतिभाग किया।

संभाग स्तरीय प्रदर्शनी में विद्यालय के नन्दे कलाकारों ईशान मिश्र, अंश, वंश, अनन्या भार्गव एवं उर्जिता शुक्ला ने एकांकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर व जनपद को गौरवान्वित किया। ये 5 छात्र 9-11 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक विज्ञान शिविर में प्रतिभाग करेंगे।

इसके साथ ही संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में यशी शुक्ला ने हिंदी वाद- विवाद( विपक्ष) में द्वितीय स्थान, वृंदा अवस्थी ने हिंदी वाद- विवाद(पक्ष) में तृतीय स्थान, अक्षरा मेहरोत्रा ने त्वरित चित्रकला में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का परचम ऊँचा किया।

संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में अंग्रेजी वाद विवाद में वर्तिका सिंह व अमोलिका सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, हिमांशु मिश्र ने हिंदी काव्य पाठ में तृतीय स्थान व मेहर जमाल ने अंग्रेजी भावपूर्ण भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उक्त प्रतियोगिता में विद्यालय की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्राचार्य श्री सुनील कुमार जी ने छात्रों व शिक्षकों को बधाई दी अपने संबोधन में उन्होंने एकांकी के छात्रों का विशेष उत्साहवर्धक किया। संगीत शिक्षिका मीता पन्त का उल्लेख करते हुए उन्हें कठिन परिश्रम व लगन की भूरि- भूरि प्रशंसा की। विद्यालय स्तर पर उक्त प्रतियोगिता का संयोजन श्री नीलेश कुमार मिश्र, पी० जी० टी (इतिहास) द्वारा किया गया।

प्राचार्य